



14th August, 2024

Ref. No.: 102339/S/O/L-1/2024-25

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code - ASAHINDIA

BSE Code - 515030

Sub: Newspaper Advertisement for Convening 39th Annual General Meeting through VC / OAVM, Book Closure, Remote E-Voting Information, Manner of E-mail ID Registration and Bank Details Registration for Dividend Purposes

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published in compliance with various applicable MCA & SEBI Circulars permitting holding of AGM through video conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), intimating that 39th Annual General Meeting of the Company will be held on Wednesday, 4th September, 2024 through OAVM, manner of registration of e-mail ID for obtaining Annual Report & Bank details for direct transfer of Dividend to shareholders' Bank account.

The said Advertisement were published in "Business Standard" and "Veer Arjun, Delhi", on 14th August, 2024 regarding Notice of ensuing Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote E-Voting information.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Limited,

Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram- 122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542

Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market,
Kirti Nagar, New Delhi – 110015

GILADA FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED				
CIN: L65910KA1994PLC015981				
Regd. Office: #105 R.R. Takt, 37 Bhoopasandra Main Road, Bangalore- 560094 Ph: 080-40620000(30 Lines) Fax: 080-40620008; E-mail: info@giladagroup.com, Website: www.giladafinance.com				
(Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter ended on 30 th June, 2024) [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]				
(Rs. In Lakhs)				
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended
		30-Jun-2024 (Un-audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2024 (Un-audited)
1.	Total Income	176.77	173.50	652.94
2.	Total Expenses	103.93	158.77	419.40
3.	Profit/ Loss before Tax	72.84	14.72	233.53
4.	Tax Expenses			
a)	Current tax	18.30	8.00	63.07
b)	Deferred Tax	-	-	-
5.	Profit for the Period	54.54	6.72	170.46
6.	Equity Share Capital	702.46	702.46	702.46
7.	Earnings Per Share :			
1. Basic:		0.39	1.21	1.21
2. Diluted:		0.39	1.21	0.31

Notes:-The above is an extract of the detailed format of un-audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the un-audited Financial Results is available on the website of the Company at www.giladafinance.com and the Stock Exchange at www.bseindia.com.

For GILADA FINANCE AND INVESTMENTS LTD.
Sd/- (Rajagopal Gilada)
Managing Director (DIN: 00387829)

Place : Bangalore
Date : 13.08.2024

ASAHI INDIA GLASS LIMITED	
CIN: L26102DL1984PLC019542	
Registered Office: A-2/10, 1 st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, New Delhi - 110 015, Phone: (011) 49454900	
Corporate Office: 3 rd Floor, lower-D, Global Business Park, Mehrauli-Gurugram Road, Gurugram - 122 002 (Haryana)	
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/488	
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com	

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 39th (Thirty Ninth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Wednesday, the 4th day of September, 2024 at 3:00 P.M. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Visual Means (OAVM)**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 respectively issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the Ordinary and Special Business(es) as detailed in the Notice sent to the Members at their registered email IDs with the Depository Participant(s) and / or RTA together with Audited Financial Statements including Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2024.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, would be paid to such shareholders whose name appears in Register of Members / Statement of Beneficial Ownership furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on 28th August, 2024. The final dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after 10th September, 2024.

The Information and instructions for members attending AGM through VC / OAVM are explained in Note No. 25 of the Notice of AGM. Members attending AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020 and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with facility of "remote e-voting" before the meeting starts (facility to cast vote using an electronic voting system from a place other than venue of a general meeting), through e-voting services provided by CDSL to enable its Members to cast their votes in respect of business(es) to be transacted at the 39th AGM.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of Wednesday, 28th August, 2024 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 39th AGM through electronic voting system of CDSL. The Notice of AGM was sent electronically on 13th August, 2024. The remote e-voting shall commence on Saturday, 31st August, 2024 at 9:00 A.M. IST and shall end on Tuesday, 3rd September, 2024 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 P.M. IST on 3rd September, 2024 and once the vote is casted by the member, the member shall not be entitled to change it subsequently.

Persons who have acquired shares and have become Member after sending of Notice and holding shares as on cut-off date i.e. 28th August, 2024, may follow the same instructions for e-voting as mentioned in the notice of AGM. Any Member who has exercised his right of vote through remote e-voting will be entitled to attend 39th AGM but will not be entitled to vote again in the meeting. In accordance with the relevant circulars, the Notice of the 39th AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other document sent by email to all those members, whose email address are registered with the Depository Participant(s) and / or RTA. The same is also available on the website of the Company www.aisglass.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The aforesaid documents are also available on website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Any Member, who has not registered his / her email ID may register itself at company's email ID investorrelations@aisglass.com at least 7 days prior to the date of AGM.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no.: 1800 225533.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

It is clarified that for permanent registration of email address, the members are however requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited.

Manner of casting votes through e-voting: The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") to those members who could not cast their votes by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote e-voting"), as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM through VC / OAVM, has been provided in the Notes to the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes through e-voting.

Registration of Bank Details for physical shareholders: The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their bank details can get the same registered with Link Intime India Pvt. Ltd. (Email ID: rt.helpdesk@linkintime.com or raise a query on https://linkintime.com/rt/helpdesk/Service_Request.html). The members are requested to provide details as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, Email ID along with the copy of the cheque leaf with the first named shareholders name imprinted in the face of the cheque leaf containing bank name and branch, type of account, bank account number, MICR details and IFSC code in PDF or JPEG format. It is very important that the shareholder should submit the request letter duly signed. RTA will verify the documents provided and will only take on records for all valid cases.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, 29th August, 2024 to Wednesday, 4th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend, if declared at the AGM.

For Asahi India Glass Limited
Sd/-
Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No. F 7090

Date: 13th August, 2024
Place: Gurugram

G.S. AUTO INTERNATIONAL LTD.					
Regd. Office : G.S.Estate, G.T.Road, Ludhiana-141010 Ph. 0161-2511001-02 (2 Lines), CIN No.: L34300PB1973PLC003301 www.gsgruppindia.com, E-mail:-info@gsgruppindia.com					
Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30 th June, 2024					
(Rs. In Lacs)					
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30/06/2024 Un-Audited	31/03/2024 Audited	30/06/2023 Un-Audited	31/03/2024 Audited
1	Total Income from operations (Net)	3827.25	3924.98	3748.10	15106.35
2	Net Profit/(Loss) for the period/year (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	51.09	22.62	30.15	100.66
3	Net Profit/(Loss) for the period/year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	51.09	22.62	30.15	100.66
4	Net Profit/(Loss) for the period /year after Tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	43.62	28.96	16.89	69.08
5	Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period /year (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	0.00	(3.20)	0.00	(3.20)
6	Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- Each, fully paid up)	725.73	725.73	725.73	725.73
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	--	--	--	1424.38
8	Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (Face Value Rs.5/- each) (Not Annualised)				
(i)	Basic & Diluted EPS before Extraordinary Items (Rs.)	0.30	0.20	0.12	0.48
(ii)	Basic & Diluted EPS after Extraordinary Items (Rs.)	0.30	0.20	0.12	0.48

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the stock exchange, www.bseindia.com and on the Company's website at www.gsgruppindia.com.
- The above un-audited financial results for the quarter ended June 30, 2024, as reviewed by the Audit Committee of the Board, were approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2024. The statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the results.
- The Company is operating in One Segment viz "Auto Components"
- Previous period's years figures have been regrouped & reclassified, wherever found necessary.

For G.S. Auto International Limited
Sd/-
Jasbir Singh Ryaat
Chairman & Jt. Mg. Director
DIN : 00104979

Place : Ludhiana
Date : 13.08.2024

GP WIND (JANGI) PRIVATE LIMITED				
[Regulation 52(8) read with Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]				
Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024				
Regd Office:- S2, Lakshmi Nilayam, H.No.326, Begumpeta, 6-3-1186/A/8, Hyderabad-500016, Telangana. CIN: U40300TG2010PTC070416				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30-06-2024	Quarter ended 30-06-2023	Previous Year ended 31-12-2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
01	Total Income from Operations	2,047	2,188	6,242
02	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	944	1,160	1,968
03	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	944	1,160	1,358
04	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	703	992	871
05	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	703	992	871
06	Paid up Equity Share Capital	25,168	25,168	25,168
07	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	(3,057)	(3,577)	(3,901)
08	Securities Premium Account	-	-	-
09	Net worth	22,111	21,591	21,267
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	18,066	20,162	19,641
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12	Debt Equity Ratio	0.84	0.97	0.96
13	Earning Per Share (of Rs 10/- each) - (Basic & Diluted)	0.28	0.39	0.35
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-
15	Debt Redemption Reserve	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	3.89	4.03	1.29
17	Interest Service Coverage Ratio	3.89	4.03	2.66

* Outstanding Debentures

Notes:

- The above Financial results have been approved by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2024.
- The above results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 ("Act") read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above is an extract of the detailed format of Annual results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. The full format of the Annual results is available on the website of the NSE Limited (URL: <https://www.nseindia.com>) and the same is also available on the company's website (URL: <https://gpwindjangi.in>).
- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on the web site of NSE.

By Order of the board
For GP Wind (Jangi) Private Limited
Sd/-
(S Sundar Rajan)
Wholetime Director & CFO
DIN: 03594693

Place: Hyderabad
Date: August 13, 2024

Dr.Reddy's				
NOTICE OF POSTAL BALLOT				
Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 read with Section 108 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act"), read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (hereinafter referred to as "the Rules"), and other applicable provisions of the Act, rules, circulars and notifications thereunder, as amended from time to time, General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 11/2022 dated December 28, 2022 and 9/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs, ("MCA Circulars"), Dr. Reddy's Laboratories Limited ("the Company") seeks their approval through postal ballot process, by voting through electronic means ("remote e-voting") for the ordinary resolution to approve sub-division/split of each equity share of Rs. 5/- (Rupees five only) each into 5 (five) equity shares of Re. 1/- (Rupee one only) each and consequent alteration to the Memorandum of Association of the Company.				
In accordance with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice ("Notice"), indicating, <i>inter alia</i> , the process and manner of remote e-voting, has been sent on Tuesday, August 13, 2024 through electronic mode to the members whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on August 09, 2024 ("Cut-Off Date") received from the Depositories and whose e-mail address is registered with the Company/ Depositories. A person who is not a member as on the Cut-Off Date shall treat this notice for information purpose only.				
The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") to provide e-voting facility. The e-voting period commences on Wednesday, August 14, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 12, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The detailed instructions for e-voting are provided as part of the Notice which the members are requested to read carefully before casting their vote.				
In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the 'downloads' section of www.evoting.nsdl.com or call NSDL Help Desk on toll free no.: +91-22-48867000 and +91-22-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in .				
The Notice regarding the Explanatory Statement thereto can be downloaded from the Company's website at www.drreddys.com . The same is also available on the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com .				
The Board of the Company has appointed Mr. Atul Mehta (Membership No. F5782 and COP No. 2486), Founding Partner, failing him, Ms. Aliya Sapatwala (Membership No. 24091 and COP No. 24895), Partner, M/s Mehta & Mehta, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the postal ballot through the e-voting process in a fair and transparent manner.				
The voting results of the postal ballot shall be declared by the Company on or before September 14, 2024. The results would be displayed at the registered office of the Company, intimated to the NSDL and Stock Exchanges where the Company's securities are listed, and displayed on the Company's website www.drreddys.com along with the Scrutinizer's report.				
Members who have not yet registered/ updated their email address and hence have not yet received the aforesaid Notice are requested to register/ update their e-mail address on https://www.drreddys.com/investor/investor-services/shareholder-information or with their depository participant or send their consent at shares@drreddys.com along with their Folio No./ DP ID and Client ID and valid e-mail address.				
For Dr. Reddy's Laboratories Limited, K Randhir Singh Company Secretary, Compliance Officer and Head-CSR				
Date : August 13, 2024 Place : Hyderabad				
DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED Regd. Office: 8-2-337, Road No.3, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034 CIN: L85195TG1984PLC004507, Tel: 91 40 4900 2900, Fax: 91 40 4900 2999 email: shares@drreddys.com , website: www.drreddys.com				

JHS SVENDGAARD RETAIL VENTURES LIMITED				
(FORMERLY KNOWN AS JHS SVENDGAARD RETAIL VENTURES PRIVATE LIMITED)				
Regd Office : Fifth Floor, Plot No. - 107, Sector-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122001. CIN: L52100HR2007PLC093324				
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 th JUNE, 2024				
Particulars	Quarter Ended 30 th June 2024	Quarter Ended 31 st March 2024	Quarter Ended 30 th June 2023	Year Ended 31 st March 2024
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations	457.41	425.92	405.55	1660.10
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	14.59	14.33	(48.92)	29.06
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	14.59	14.33	(48.92)	29.06
Net Profit / (Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	9.69	8.86	(44.21)	25.48
Total comprehensive income for the period	9.69	8.86	(44.21)	25.48
Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	65.05	65.05	65.05	65.05
Earnings per equity share (of Rs 10 each)				
(a) Basic (Rs)	0.15	0.14	(0.68)	0.39
(b) Diluted (Rs)	0.15	0.14	(0.68)	0.39

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 as reviewed by Audit Committee and approved by Board in its meeting dated August 12, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on Company's website at www.jhsretail.com.

For and behalf of
JHS Svendgaard Retail Ventures Limited
Sd/-
NIKHIL NANDA
Managing Director
DIN 00051501

Date: August 12, 2024
Place: New Delhi

PVP VENTURES LIMITED							
Reg Off: D. No. 2, 9th Floor, KRM Centre, Harrington Road, Chetpet, Chennai-600031; Web : www.pvpglobal.com ; Email: investorrelations@pvpglobal.com ; Tel: 044 30285570 CIN: L72300TN1991PLC20122							
EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 th JUNE, 2024							
(as per format of Newspaper Publishing Purpose of Regulation 33 of SEBI Listing Regulations, 2015)							
Sl. No.	PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED			
		Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Audited	Quarter ended 30.06.2024 Unaudited	Quarter ended 30.06.2023 Audited	Year ended 31.03.2024 Audited	
1	Total income from operations (net)	261.05 (184.00)	2.92 (381.39)	753.63 (878.65)	515.41 (270.55)	48.50 (395.70)	1,666.25 (1,090.50)
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extra ordinary items)	(184.00)	(381.39)	2,771.63 (270.55)	(395.70)	6,157.70	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extra ordinary items)	(138.64)	(381.39)	3,239.40 (225.19)	(395.70)	6,653.98	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(156.24)	(381.39)	3,014.10 (242.79)	(395.70)	6,431.42	
5	Total comprehensive Income for the period (Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and their comprehensive income (after tax))						
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)	26,040.37	24,750.37	26,040.37	26,040.37	24,641.35	26,040.37
7	Earnings Per Share (not annualised) of Rs. 10 each/- Basic Diluted	(0.05) (0.05)	(0.15) (0.15)	1.28 1.28	(0.09) (0.09)	(0.16) (0.16)	2.62 2.62

NOTES :

- The above results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 12th August, 2024 and approved by the Board of Directors at its meeting held on even date. The above quarterly results have also been reviewed by the statutory auditors.
- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended 30th June, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com on the company's website www.pvpglobal.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Prasad

